



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 26, मंगलवार, शाके 1941-सितम्बर 17, 2019
Bhadra 26, Tuesday, Saka 1941-September 17, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur, September 13, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/10029 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Abu Road has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Abu Road. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Governmen.

कार्यालय नगर पालिका, आबूरोड़ (सिरोही)

प्रारूप - क

वार्ड नंबर	वार्ड का विवरण
1	सुदर्शन सीमेंट की दीवार के उत्तर-पश्चिम कोने से दीवार के सहारे-सहारे पश्चिम की ओर चलकर नगरपालिका सीमा तक वहा से दक्षिण की ओर चलते हुये बाये हाथ के मकानों जाटो कॉलोनी, फरिशता कॉलोनी को लेते हुये, रघुनाथ फार्म से पूरब की ओर चलते बाये हाथ के मकान पटेल आयरन, पुखराज शंकरलाल के मकान को लेते हुए सरदार खां के मकान के कोने तक वहां से उत्तर की ओर चलकर रोड क्रोस कर जब्बार खां की दुकान को लेते हुए बायें हाथ के मकानों को लेते हुए सोनल कस्तुर का मकान कानानी गीगा के बाड़े को लेते हुए नदी किनारे तक वहां से उत्तर की ओर मुड़कर बायें हाथ के मकानो को लेते हुए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को लेते हुए कब्र कॉलोनी को लेते हुए उप स्वास्थ्य केन्द्र को लेते हुए माउण्ट रोड तक वहां से उत्तर की ओर नगरपालिका की सीमा के सहारे-सहारे बायें के हाथ के मकानों को लेते हुए सुदर्शन कॉलोनी को लेते हुए माउण्ट रोड तक वहां से रोड क्रोस कर पश्चिम की ओर सुदर्शन सीमेंट की दिवार तक।

2	राजस्व संघ के क्वार्टर (नर्सरी) एवं गोदाम को लेते हुए पूरब की ओर चलते हुए नदी का पूर्वी-दक्षिणी कोने तक वहां से उत्तर की ओर चलते नदी को लेते हुए खसरा 142 को लेते हुए नगरपालिका की सीमा के सहारे-सहारे वहां से नदी क्रोस कर पश्चिम की ओर चलते हुए कृष्ण कुमार के बायें हाथ के मकानों को लेते हुए माउण्ट रोड पर पंचायत भवन तक वहां से दक्षिण की ओर मुडकर बायें हाथ के हरिश चौधरी जी के मकान को लेते हुए हाउसिंग बोर्ड को लेते हुए नर्सरी तक।
3	माउण्ट रोड पर जैन मंदिर सिंचाई कॉलोनी एच.जी स्कूल होते हुए दक्षिण में गणेश कॉलोनी के बडी नेहरी के मकानों को लेते हुए अंबा कैसा के मकान के रास्ते दायें हाथ के मकानों को लेते हुए खसरा नं .180 (रोयल राजस्थान स्कूल के कोने से) से दायें पर नगरपालिका सीमा को लेते हुए उत्तर की ओर चलते हुए नगरपालिका सीमा की ओर चलते खसरा नं .217 को लेकर रोड क्रोस कर खसरा 231 व 241,242 खसरा नं 40 व 41 उत्तर की ओर चलकर युसुफ के फार्म की से पूर्व की ओर चलते हुए दायें हाथ के मकानों को लेते हुए जगदीश मेघवाल के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर दायें हाथ के मकान चिरंजीलाल शर्मा के मकान को लेते हुए राजकीय माध्यमिक विद्यालय आकराभट्टा को लेते हुए श्रीजी और गणेशम् का मकान को लेते हुए दायें हाथ के मकानों को लेते हुए मारुति शो-रूम को लेते हुए जोधपुर विधुत वितरण निगम को लेते हुए डॉ . केला की भूखण्ड सीमा जलदाय विभाग (पशु चिकित्सक) को लेते हुए जैन मंदिर तक।
4	नर्सरी उत्तरी कोने से दक्षिण की ओर चलते हुए बायें हाथ के मकान व जैन मंदिर को लेते हुए रोड क्रोस कर ब्रह्माकुमारीज ज्ञानदीप के भवन को लेते हुए एच.जी. स्कूल रोड के बायें हाथ के मकानों को लेते हुए एच.जी. स्कूल की बाउंड्री से दक्षिण मुड कर जनजाति छात्रावास को लेते हुए बायें हाथ के मकानों को लेते हुए ऋषिकेश रोड खसरा 641 के कोने तक वहां पूर्व की ओर चलते हुए बायें हाथ के मकानों को लेते हुए पेट्रोल पंप तक वहां से रोड क्रोस कर रजवाडी पुलिया क्रोस कर नगरपालिका वार्ड सं. 30 की सीमा सहारे-सहारे नदी को लेते हुए खसरा नं 24 की सीमा तक वहां से पश्चिम की ओर चलकर नदी क्रोस करते हुए वार्ड 2 की सीमा के बायें हाथ के मकानों को लेते हुए नर्सरी के कोने तक।
5	भद्रकाली रोड पर कोठारी कॉम्प्लेक्स से पश्चिम की ओर चलकर बांये हाथ के मकानों के लेते हुए राधा स्वामी आश्रम तक वहां से दक्षिण की ओर मुडकर बांये हाथ के मकानो को लेते हुए मण्डार रोड तक वहां से पश्चिम की ओर चलकर बांये हाथ के मकान, छात्रावास, गुलाबचंद परिहार के मकानों को लेते हुए रपट तक वहां से दक्षिण की ओर मुडकर नाले के सहारे सहारे बांये हाथ के भीलों के मकानों के लेते हुए, भूतेश्वर महादेव को लेते हुए नदी तक, वहां से पूर्व की ओर मुडकर नदी के किनारे किनारे चलते हुए बडे पुल पर सैनी

	समाज की भूमि तक वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर बायें हाथ पर हनुमानजी मंदिर, चैधरी कॉम्प्लेक्स, मानपुर स्कूल, जैन मंदिर के मकान एवं दुकान को लेते हुए गोविन्द मामा की होटल तक, वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर भद्रकाली रोड पर कोठारी कॉम्प्लेक्स तक।
6	आदर्श विद्या मंदिर के पास बने कच्चे मकानों को लेते हुए नदी के सहारे चलते हुए आदर्श विद्या मंदिर, मकानों व खेत को लेते हुए नगरपालिका सीमा तक वहां से पूर्व की ओर मुड़ते हुए रोड क्रॉस कर बायें हाथ मकानों को लेते हुए सामुदायिक शौचालय तक वहां से पूर्व की ओर चलकर रामदास महाराणा का खेत को लेते हुए बायें हाथ के मकानों को लेते हुए की कोने की सीमा तक। वहां से उत्तर की बायें हाथ के मकान मोहन लाल के मकानों को लेते हुए आबकारी रोड तक वहां से पश्चिम की ओर आबकारी रोड चलते हुए बायें हाथ के मकानों को लेते हुए हैंडपंप तक वहां से उत्तर की मुड़कर बायें हाथ के मकानों को लेते हुए अमरापुरी के कोने के पास तक वहां से नदी को छोड़ते हुए नदी के सहारे-सहारे आदर्श विद्या मंदिर तक।
7	मोहन वाटिका के पास नदी किनारे के सहारे-सहारे पूर्व की ओर चलते हुए नगरपालिका भवन को लेते हुए अमरापुरी तक वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर बायें हाथ के मकानों को लेते हुए आदर्श विद्या मंदिर रोड तक वहां से पूर्व की ओर मुड़कर बायें हाथ के मकानों राजपुत मौहल्ला आबकारी ऑफिस तक वहां से रोड क्रॉस कर दक्षिण की ओर चलते हुए चामुण्डा मंदिर को लेते हुए कोली मौहल्ले के बायें हाथ के मकानों को लेते हुए धापु देवी के मकान तक वहां पूर्व की ओर चलकर बायें हाथ के मकानों को लेते हुए रामसिंह के प्लांट तक वहां से उत्तर की ओर चलकर आबकारी रोड तक रोड क्रॉस कर दरगाह कॉलोनी के बायें हाथ के मकानों को लेते हुए कोषाधिकारी ऑफिस को लेते हुए शितला माता मंदिर तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुए बायें हाथ के मकानों को लेते हुए कोर्ट को लेते हुए छोटी पानी टंकी तक वहां से उत्तर की ओर मुड़कर मोहन वाटिका तक।
8	श्रवण मोची के मकान के पश्चिम की ओर कोने से पूर्व की ओर ईदगाह रोड की ओर चलते हुए बायें हाथ के मकानों को लेते हुए हनुमान जी मंदिर को लेते हुए रमजान घोसी के मकान तक वहां से रोड क्रॉस कर कादर ईट वाले के मकान को लेते हुए याकूब डाईवर मकान तक वहां से उत्तर कर और मूड़कर सफी कन्डेक्टर के मकान को लेते हुए भिश्ती मोहल्ले के रोड तक वहां से पश्चिम की ओर मूड़ कर बायें हाथ के मकान तक वहां से रोड क्रॉस कर रमजान घोसी मकान को लेते हुए बड़ी घोसी गली के बायें हाथ के मकानो को लेते हुए कोर्ट रोड पर कोने पर स्थित मकान तक वहां से पश्चिम की ओर चजकर बायें हाथ के मकानो को लेते हुए नरपत सिंह रीडर के मकान को लेते हुए विनोद अग्रवाल की चक्की तक वहां से रोड क्रॉस कर मेडिकल से बायें हाथ के मकान, पुष्पा

	चारण के मकान को लेते हुए श्रवण मोची के मकान तक।
9	जगदीश चैराहा पर वल्लभ स्वरूप भट्टनागर के मकान से पश्चिम की ओर चलकर अंबाजी मंदिर को लेते हुए जय गंगा गारमेन्ट, गोपाल घासी के बायं के मकान को लेते हुए बनवारी लाल सुबाराम के मकान तक वहां से रोड क्रॉस कर चिरंजीलाल मकान से बायं हाथ के मकान को लेते हुए अंबालाल लक्ष्मीनारायण के दुकान को लेते हुए गली क्रॉस कर ठेकेदार शकूर घौसी के मकान को लेते हुए उमर अल्लादीन के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर बडी घौसी मौहल्ला बायं हाथ के मकानों को लेते हुए ईदगाह रोड पर (भिशती मोहल्ले रोड) के मकान तक वहां से पूर्व की ओर चलकर गनी घौसी के मकान तक वहां से रोड क्रॉस कर राम सिंह की आटा चक्की को लेते हुए बायें हाथ के मकानों को लेते हुए अंबिका टिम्बर को लेते हुए सीधे चलते हुए बायें हाथ के मकानों को लेते हुए रूस्तम कबाडी के मकान को लेते हुए अंबाजी मंदिर से गुलाब सबीर के मकान तक वहां से उत्तर की ओर चलकर मारुति कॉम्प्लेक्स, गुरुद्वारा को लेते हुए वल्लभस्वरूप भट्टनागर के मकान तक ।
10	जैन धर्मशाला के पूर्वी कोने से पश्चिमी कोने तक वहां से उत्तर की ओर मुड़कर जामा मस्जिद को लेते हुए भूरी बाई के मकान तक, वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर खारवाल मोड पर, वहां से बनास नदी में होते हुए पश्चिम की ओर चलकर बांये हाथ के मकानों को लेते हुए, तकीया दरगाह एवं वहां से आनन्देश्वर मन्दिर तक, वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर बांये हाथ के मकानों को लेते हुए करीम बक्श छीपा के मकान तक, वहां से पूर्व की ओर मुड़कर बांये हाथ के मकानों को लेते हुए करीम छीपा जमाल के मकान तक, वहां से उत्तर की ओर मुड़कर जैन धर्मशाला के पूर्वी कोने तक।
11	श्री मगनलाल कन्हैयालाल के मकान से दक्षिण की ओर चलकर बायें हाथ के मकानों को लेते हुए राधा के मकान तक, वहां से जुम्मा मस्जिद वाली गली में होते हुए देलदर वाले के मकान तक वहां से पूर्व की ओर मुड़कर गोपीलाल, सोहन लाल के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर बक्सी राम मोहन लाल के नोहरे तक, वहां से उत्तर की ओर मुड़कर गली में बाये हाथ के मकानों को लेते हुए बनाजी रावल के मकान को लेते हुए लदू धोबी के मकान तक वहां से उत्तर की ओर मुड़कर बाये हाथ के मकानों को लेते हुए प्रभात पुरी चयन पुरी के मकान तक, वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर रामगोपाल दुर्गाप्रसाद के मकान को लेते हुए ओमप्रकाश पुरोहित के मकान तक वहां से रोड क्रॉस कर उत्तर की ओर मुड़कर शीतला माता के मन्दिर तक, वहां से पूर्व की ओर मुड़कर राजेन्द्रसिंह के मकान तक, वहां से उत्तर की ओर मुड़कर थाने के मेन गेट तक, वहां से उत्तर की ओर मुड़कर कमरूदीन के मकान तक, वहां से उत्तर की ओर मुड़कर श्रीमति रूपा गोपालिया के मकान तक, वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर बांये हाथ के मकानों को

	लेते हुए गली में होते हुए आर्य वीर दल के अखाडे को लेते हुए नदी किनारे तक, वहां से दक्षिण ओर मुडकर वोटर वक्रस के कुएं को लेते हुए मगन कन्हैया के मकान तक।
12	रजवाडा पुल से साईं बाबा मंदिर के पश्चिमी कोने नदी के किनारे-किनारे चलते हुए बांये हाथ के मकानों को लेते हुए चन्द्रावल महिला महाविधालय को लेते हुए ब्रहमदेव मिश्रा के मकान तक, वहां से पूर्व की ओर मुडकर देवीसराय गोपालिया के मकान तक। वहां से दक्षिण की ओर मुडकर ईश्वरसिंह चैइथराम के मकान तक, वहां से रोड क्रोस कर अस्पताल के पश्चिमी कोने तक वहां से नगरपालिका दुकानों को लेते हुए सार्वजनिक प्याउ तक, वहां से पूर्व की ओर मुडकर नगरपालिका के पुराने कार्यालय को लेते हुए, मच्छी गली में होते हुए रेल्वे लाईन तक, वहां से उत्तर की ओर मुडकर बांये हाथ के मकानों को लेते हुए छोटे पुल के दक्षिणी कोने तक, वहां से रोड क्रॉस कर छोटे पुल पर होते हुए दरगाह को लेते हुए शांतिकुज पार्क को लेते हुए, रजवाडा पुल तक।
13	मच्छी गली के पास रेल्वे लाईन्स की ओर से पश्चिम की ओर चलते हुए बायें हाथ की मच्छी गली को लेते हुए रोड क्रोस कर पुरानी तहसील भवन के कोने तक वहां से पश्चिम की ओर चल कर बायें हाथ के मकानों को लेते हुए सत्यनारायण फुलचंद, कैलाश मेडिकल आदि को लेते हुए रोड क्रोस कर ऑपी पेन्टर की दुकान रामजी मंदिर को लेते हुए महादेव मंदिर तक वहां से दक्षिण की ओर मुडकर बायं हाथ के मकान व मरमट का मकान, हरिशंकर रामगोपाल की चक्की को लेते हुए बालाजी मंदिर तक वहां से दक्षिण की ओर मुडकर सीढीयों चढते हुए दयाल कपडे वाले की दुकान तक वहां से पूर्व की ओर मुडकर मैन बाजार रोड तक वहां से दक्षिण की ओर मुडकर बायें हाथ के मकानों व दुकानों को लेते हुए मुशी हलवाई की दुकान तक, वहां रोड क्रोस कर दिनेश चैधरी की दुकान के पीछे रेल्वे सीमा के बायें हाथ की कॉलोनी को लेते हुए नंदु ताराचंद की दुकान के पीछे रेल्वे सीमा को लेते हुए इब्राहीम पान वाले की दुकान के पीछे से रेल्वे दिवार को लेते हुए नाले के पास राजा कोठी की उत्तरी कोने तक वहां से पूर्व की ओर मुडकर राजा कोठी की दिवार के सहारे-सहारे रेल्वे के बायें हाथ के क्वार्टरों को लेते हुए रेल्वे लाइन तक वहां से रेल्वे लाईन क्रॉस कर पूर्व की ओर चलते हुए नाले के सहारे सहारे रेल्वे हास्पिटल रोड तक वहां से उत्तर की ओर मुडकर बायें हाथ के रेल्वे के मकानों को लेते हुए रेल्वे सुरक्षा बल केन्द्र के कोने तक, वहां से पश्चिम की ओर मुडकर बांये हाथ के रेल्वे सुरक्षा बल केन्द्र, रेल्वे इन्सटिट्यूट को लेते हुए रेल्वे लाईन तक, वहां से उत्तर की ओर मुडकर रेल्वे लाईन के सहारे सहारे रेल्वे के प्लेटफॉर्म को लेते हुए मच्छी गली के सामने रेल्वे लाईन तक वहां से पश्चिम की ओर मुडकर रेल्वे लाइन क्रॉस कर मच्छी गली तक।
14	धोबी गली से दूध धोबी के मकान से पश्चिम की ओर चलकर बायें हाथ के मकान माथुर बिल्डिंग, जान चाचा के मकान को लेते हुए सीधे चलते हुए बायं हाथ के मकानों को लेते

	<p>हुए जानीमल के मकान तक वहां से पूर्व की और मुडकर बायं हाथ के मकानों को लेते हुए जैन भोजनालय शाला आदि को लेते हुए वहां से दक्षिण की और मुडकर बायं हाथ के मकानों को लेते हुए पत्थर गली स्थित गौशाला मकान तक फिर वहां से पत्थर गली स्थित गौशाला मकान तक विष्णु काका की दुकान को लेते हुए आजाद मैदान के सोनी के मकान तक वहां से रोड क्रॉस कर आशिष हैन्डलूम की दुकान तक वहां से पश्चिम की और मुडकर बायं हाथ निरजंन जी अग्रवाल के कोने तक वहां से दक्षिण की और मुडकर बायं हाथ के मकानों को लेते हुए पोपट भाई, बाबु सेल टेक्स वालो का मकानो को लेते हुए अर्जुनदास, धावड दास की दुकान तक वहां से रोड क्रॉस कर चलते हुए पुरानी आर्य समाज भवन को लेते हुए भवानी इलेक्ट्रीक, जाजम कॉटन गंगाजी मंदिर, कल्पना साडी सेन्टर आदि को लेते हुए सुभाष मार्केट पर बजरंग किराणा स्टोर तक वहां से पूर्व की और मुडकर बायं हाथ के मकान रतन लाल मास्टर नवल राजाराम के मकानों को लेते हुए भिलो की नाथ टंडन की दुकान के पास मैन बाजार रोड तक वहां से रोड क्रॉस कर अग्रवाल समाज की पानी की प्याउ को लेते हुए रेल्वे दिवार तक वहां से उत्तर की और चलकर रेल्वे सीमा को छोड़ते हुए बायें हाथ की दुकानों को लेते हुए मैन चैराहे पर दिनेश चैधरी की दुकान के पीछे कोने तक। रोड क्रॉस कर बनवारी लाल सोमाराम की दुकान के कोने से उत्तर की और चलते हुए श्रीचंद हलवाई, शंकरलाल सोनी व कोठारी कपड़े वाले की दुकानों/मकानों को लेते हुए पत्थर गली के कोना पर मोहन लाल/सुरजमल की बर्तन की दुकान तक वहां से रोड क्रॉस कर अंबालाल महावीर प्रसाद के बायें हाथ की दुकानों/मकानों को लेते हुए जान चाचा की बर्तन की दुकान, राठी मेडिकल की दुकान के कोने तक, वहां से पश्चिम की और मुडकर बायें हाथ के मकान लेते हुए दुदु धोबी के मकान तक।</p>
15	<p>अम्बाजी रोड पर महेन्द्र गुप्ता बंशीलाल कोटेड वाले का मकान के से पश्चिम की और चलकर बायें हाथ के मकान साईं बाबा होस्पिटल को लेते हुए अमीर मोहम्मद के मकान को लेते हुए, ईदु खां की बेकरी को लेते हुए सीधे चलते हुए कुम्हार मोहल्ला रोड क्रॉस कर बायें हाथ शंकर सिंह झाइवर के मकान को लेते हुए, भंवर सिंह, चम्पालाल शर्मा आदि के मकानों को लेते हुए माले खां के मकान तक वहां से दक्षिण की और चलकर बायें हाथ के मकानों को लेते हुए ईदगाह रोड पर आनंद मास्टर के मकान तक वहां से ईदगाह रोड की और चलते हुए बायें हाथ के मकानों को लेते हुए खाजु मदारी के मकान तक, खाजु मदारी के मकान से दक्षिण की और मुडकर गुरूनानक कॉलोनी की सीधे की सीमा तक। वहां सं पूर्व की और मुडकर गुरूनानक कॉलोनी की सीमा के सहारे-सहारे चलते हुए बायें हाथ के मकान बिन्दु लुहार लखु कुम्हार के मकान को लेते हुए केसरगंज रोड (कॉलेज रोड) से उत्तर की और मुडकर रोड क्रॉस कर पूर्व की और मुडकर बायें के मकान सोहन</p>

	<p>प्रजापत के, बाबु भाई प्रजापत, डॉ. गुप्ता के होस्पिटल को लेते हुए शांतिनाथ गेस्ट हाउस वहां से उत्तर की ओर मुड़कर बायें हाथ की तरफ पारसी अग्र्यारी गोयल ऑप्टीकल की दुकान, अमरचंद अग्रावल के मकान, भवनेश बारोट के मकान को लेते हुए अंबाजी रोड पर पुनः महेन्द्र गुप्ता के मकान तक।</p>
16	<p>ईदगाह के कोने तक वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर इदगाह की सीमा के सहारे-सहारे इदगाह के दक्षिणी कोने तक वहां से पूर्व की ओर मुड़कर इदगाह के कोने तक उत्तर की ओर मुड़कर इदगाह के सहारे-सहारे चलते हुए नगरपालिका स्लोटर हाउस तक वहां से पूर्व की ओर मुड़कर मुलचंद तिरखाराम के खेत के कोने तक वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर अन्नापूर्णा कॉलोनी के उत्तरी कोने तक वहां से पूर्व की ओर मुड़कर बायें हाथों के मकान को लेते हुए अन्नापूर्णा कॉलोनी, बैंक कॉलोनी के पीछे की सीमा के सहारे-सहारे रामलाल बलाई ड्राईवर के मकान से उत्तर की ओर मुड़कर गुरुनानक कॉलोनी की दिवार के सहारे-सहारे बायें के मकानों वाल्मिकी समाज भवन को लेते हुए ईदगाह रोड तक वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर बायें हाथ के मकान अशोक पुखाराम का मकान, शौकत नागौरी दुकान आदि के मकानों को लेते हुए ईदगाह तक।</p>
17	<p>खाजू मदारी के पीछे गुरुनानक कॉलोनी की बाउण्डरी से दक्षिण की ओर चलकर बांये हाथ की गुरुनानक कॉलोनी को लेते हुए रामलाल बलाई के मकान के पीछे तक वहां से पूर्व की ओर मुड़कर बांये हाथ के मकान को लेते हुए केसरगंज रोड तक रोड क्रॉस कर बांये हाथ के शीतल प्रसाद टी.टी उमेश छंगाणी के मकान भवानी इलेक्ट्रीक का मकान मधुसुदन सर्राफ की मकान एवं ब्रहमपुरी कॉलोनी के मन्दिर को लेते हुए अर्बूद स्कुल की दिवार तक वहां से उत्तर की ओर मुड़कर बांये हाथ के लाल लोधे आदि का मकान को लेते हुए वहां तक, वहां से उत्तर की ओर मुड़कर सिंधी कॉलोनी व प्रसादीलाल धर्मशाला की गली की ओर चलते हुए बांये हाथ के मकानों को लेते हुए अम्बालाल महावीर प्रसाद, चिंरजीलाल मास्टर, छगन जोशी के मकानों को लेते हुए प्रसादीलाल धर्मशाला को लेते हुए अम्बाजी रोड तक, वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर किशन कोठे वाले के मकान को लेते हुए थावरदास होतचंद के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर रोड क्रॉस कर लकखु कुम्हार के मकान के पीछे तक वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर गुरुनानक कॉलोनी की बाउण्डरी के सहारे सहारे बायें हाथ के सैनी समाज की दुकान को लेते हुए खाजू मदारी के मकान के पीछे, गुरुनानक कॉलोनी की बाउण्डरी के कोने तक।</p>
18	<p>संगम भवन को लेते हुए विजय चैरासिया के मकान तक वहां से रोड क्रॉस कर दक्षिण की ओर प्रसादी लाल धर्मशाला से दक्षिण की ओर चलकर बायें हाथ पर श्री भागीरथ शर्मा, कन्नू भाई भावसर के मकानों को लेते हुए नाले तक वहां से पूर्व की ओर मुड़ कर गुजराती समाज के नाले की पुलिया चढ कर बायं हाथ केबिन इत्यादि को लेते हुए</p>

	<p>अंबाजी रोड पर राकेश/बाबूलाल जैन के मकान तक वहां रोड क्रॉस कर राजा कोठी की दीवार से रेल्वे सीमा से उत्तर की ओर चलते हुए बायं हाथ के केबिनो को लेते हुए नंदु ताराचंद की दुकान, श्री नाथ नमकीन, करीम बक्श की दुकान को लेते हुए अग्रवाल समाज की की प्याउ तक वहां से रोड क्रॉस कर पश्चिम की ओर चलते हुए बायं हाथ पर श्री कोकचा के मकान से बायं हाथ के मकानो को लेते हुए अशोक परता राम की दुकान, प्रभु डिसा वाले की दुकान को लेते हुए दीना लाल मास्टर के मकान तक। वहां से दक्षिण की ओर चलते हुए बायें हाथ के मकानों को लेते हुए हाईलाईस्ट की दुकान तक गली क्रॉस कर बायें हाथ पर जैन सा के मकान, अम्बालाल बाबूलाल अग्रवाल के मकान, कुम्हारो के मकान को लेते हुए देव कोपलेक्स और राज कॉम्प्लेक्स को लेते हुए संगम भवन तक।</p>
19	<p>वाल्मिकी मोहल्ले के पीछे से दक्षिण की चलकर बायं हाथ की अन्नपूर्णा कॉलोनी, बैंक कॉलोनी को लेते हुए पूनम कॉलोनी के नाले तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर बायं हाथ के मकानों को लेते हुए नगरपालिका की सीमा के सहारे सहारे पूरब की ओर मूडकर लोधवाडा केसरगंज स्कूल के सामने महालक्ष्मी कॉलोनी रोड के सहारे सहारे के मकान तक वहां से रोड क्रॉस कर पूरब की मूडकर कॉलेज रोड के बायं हाथ के मकानो को लेते हुए अंबाजी मंदिर तक वहां से उत्तर की ओर चलकर बायें हाथ के मकानो को लेते हुए पानी की टंकी तक वहां से उत्तर की ओर चलकर बायें हाथों के मकान को हीना कॉलोनी, आर्शीवाद कॉलोनी को लेते हुए डॉ .कमलेश के सामने सैनी के खेत के कोने से गरुनानक कॉलोनी के नाले तक वहां से पश्चिम की ओर मुडकर नाले के सहारे-सहारे गरुनानक कॉलोनी की सीमा तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर आर्शीवाद कॉलोनी के पीछे रामलाल बलाई के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर चलकर बैंक कॉलोनी, अन्नापूर्णा कॉलोनी के बायें हाथ के मकानो को लेते हुए बस्ती के पीछे के खेत तक।</p>
20	<p>अर्बुद स्कूल के पश्चिम की ओर चलकर परशुराम भवन को लेते हुए गोरधन शर्मा, बनवारी लाल शर्मा के मकानो को लेते हुए केसरगंज रोड तक वहां से दक्षिण की ओर मुडकर बायें हाथ पर ब्रह्माण्ड कॉलोनी, कॉलेज ग्राउण्ड राम झरोखा मंदिर, अंबाजी मंदिर के वहा से पश्चिम की ओर मुडकर लोधवाडा-महालक्ष्मी कॉलोनी रोड तक वहां से दक्षिण की ओर मुडकर बायें हाथ के मकानों को लेते हुए लोधवाडा स्कूल तक वहां से पूर्व की ओर नगरपालिका सीमा के सहारे-सहारे बायें हाथ के मकान पंचायत समिति भवन, बी.डी.ओ कर्वाटर लेते हुए रवि गोयल के मकान की बाउण्ड्री तक, वहां से दक्षिण की ओर दायें हाथ पर मोना सी.आई .हार्डवेयर की दुकान, पंचायत की दुकान को लेते हुए अंबाजी रोड तक, अंबाजी रोड क्रॉस कर राजा कोठी की दिवार से उत्तर की तरफ मुडकर अर्बुद स्कूल के मार्गाधिकार के बायें मकानों/दुकानों जेठा माली, फोरेस्ट ऑफिस, सफी आयर</p>

	राजदीप होटल, पेट्रोल पंप को लेते हुए अर्बुद स्कुल के कोने तक।
21	राजाकोठी के उत्तरी कोने से दक्षिण की ओर दिवार के सहारे सहारे चलते हुए गुलाब जी हलवाई (पुखराज प्रजापत) के माकन को लेते हुए बायं हाथ पर स्थित नया खेडा स्थित मकानो को लेते हुए गणेश औंची की दुकान मेलडी माता जी की दुकान, ताउ हार्डवेयर को लेते हुए मोहन लाल छीपा के मकान से सर्विस रोड के बायं हाथ के मकानो को लेते हुए रेलवे लाइन तक वहां से पूर्व की ओर रेलवे लाइन के सहारे सहारे बायं हाथ पर सीघां कॉलोनी को लेते हुए राजाकोठी की दीवार के सहारे सहारे राजाकोठी के पूर्वी कोने तक वहां से पश्चिम की ओर मूडते हुए राजाकोठी की दिवार समीप स्थित नाले तक।
22	रेल्वे क्रोसिंग लाइन के सहारे सहारे दक्षिण की ओर चलकर बायें हाथ की फैक्ट्री/मकानों को लेते हुए स्पनिका टाईल्स के मकान तक वहां से पूर्व की ओर मुडकर बायें हाथ के मकान को लेते हुए पालनपुर हाईवे रोड क्रोस कर श्रीराम क्लिनिक को लेते हुये व बायें हाथ पर रिको आदि के मकानों के लेते हुए अंबाजी रोड स्थित गुमटी तक वहां से पश्चिम की ओर चैकपोस्ट की ओर मुडकर बांये हाथ के मकानो, मनाली हॉटल, आरटीओ चैकपोस्ट आदि को लेते हुए हाईवे तक। वहां से हाइवे क्रोस कर टीएफआई के दक्षिणी कोने तक, वहां से उत्तर की ओर मुडकर टीएफआई फैक्ट्री, सेन्ट पोल स्कुल के सहारे-सहारे शिवजी मंदिर तक वहां से पश्चिम की ओर मुडकर बांये हाथ के मकानो एवं सामुदायिक भवन को लेते हुये गांधीनगर क्षेत्र में गेल कम्पनी की दिवारो के मकानो को लेते हुये सत्यनारायण सिंह प्लाट नं. 232 के मकान तक वहां से उत्तर की ओर मुडकर बांये हाथ के मकानो को लेते हुए गांधीनगर स्कुल के मैन गेट के रोड तक वहां से पश्चिम की ओर मुडकर बांये हाथ के मकानो को लेते हुए डिजल शैड रोड तक वहां से रोड क्रोस कर बांये हाथ के मकानो को लेते हुए रेल्वे लाईन तक वहां से दक्षिण की ओर मुडकर रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे चलते हुए बांये हाथ के मकानो डिजल शैड को लेते हुए रेल्वे क्रोसिंग तक ।
23	चैक पोस्ट चैराहे से अम्बाजी रोड पर चलते हुए बायें हाथ के आई.ओ.सी कॉलोनी को लेते हुए सोजत हाउसिंग को लेते हुए, डॉ .सिंघा के खेत तक वहां से पूर्व की ओर मुडकर पहाडी के नीचे तक फिर वहां से उत्तर की ओर मुडकर बाये हाथ के मकान को लेते हुए नगरपालिका सीमा तक वहां से उत्तर की ओर मुडकर बायें हाथ के मकानों को लेते हुए भूतेश्वर महादेव मन्दिर तक वहां से पश्चिम की ओर मुडकर हाईवे रोड तक, हाईवे रोड से पालनपुर रोड की ओर चलते हुए करोई फली, टी.एफ.आई.कॉलोनी को लेते हुए चैक पोस्ट चैराहे तक।
24	सुरेश कुमार गंगाराम बैरवा के मकान से पूर्व की ओर चलकर बायें हाथ के मकानों को लेते हुए नन्ने खां पुत्र अकबर खां के मकान तक वहां से उत्तर की ओर मुडकर बांये

	हाथ के मकानों को लेते हुए लालचंद भंडारी के मकान तक, वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर स्कुल गेट के रोड तक वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर बायें हाथ के मकान को लेते हुए सुरेश गंगाराम के मकान तक।
25	सामुदायिक भवन गांधीनगर के सामने स्थित प्रकाश गाजीसिंह के मकान से कुए की ओर चलकर बांये हाथ के मकानों को लेते हुए गंगाराम भाट की दुकान को लेते हुए नवलसिंह भोजनालय को लेते हुए, हाईवे पर शिवजी मंदिर तक वहां से उत्तर की ओर हाईवे के सहारे सहारे चलते हुए बांये हाथ की फैक्टी व मकानों को लेते हुए ग्रान्ट पंजाब होटल को लेते हुए पानी की टंकी को लेते हुए जीएसएस 132 केवी के कोने तक वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर प्रेमनगर आरआरवीपीएनएल के सामने स्थित बाये हाथ के मकानों, कानाराम मारू जी का मकान, खेतलाजी मंदिर, प्रेमनगर स्कुल को लेते हुये इन्द्राकॉलोनी, आवासीय कॉलोनी को लेते हुए गुरुकृपा निवास, रमेश कच्छावा का मकान, देवाराम जी की दुकान को लेते हुये रिको वुडलेण्ड के पूर्वी कोने तक वहां से उत्तर की ओर मुड़कर बांये हाथ के मकान, बाबूलाल माली के मकान को लेते हुए जाखिर हुसैन के मकान को लेते हुये मुकेश ऐडवाकेट के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर मूड कर बाये हाथ के मकानों को लेते हुये भंवर जी सरबारा के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर बाये हाथ के मकानों, भबुताराम मीणा के मकान को लेते हुए, रिको वुडलेण्ड लेते हुए गांधीनगर रोड तक वहां से रोड क्रोस कर पश्चिम की ओर मुड़कर बाये हाथ के मकानों को लेते हुये चम्पा मीणा के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर बायें हाथ के मकानों, चम्पा मीणा के मकान को लेते हुए, अम्बेडकर भवन को लेते हुए महादेव मंदिर तक वहां से रोड क्रोस कर पश्चिम की ओर मुड़कर बांये हाथ के मकानों, हकम सिंह/सुमेर सिंह चुंडावत के मकान को लेते हुये जयंति भाई पटेल के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर बांये हाथों के मकानो लेते हुए सामुदायिक भवन के सामने प्रकाश गाजी सिंह के मकान तक।
26	लालचंद बैरवा के मकान से कारिगरो के मोहल्ले में दक्षिण की ओर चलकर बाये हाथ के मकानो को लेते हुए स्कूल के मैन गेट तक वहां से पूर्व की ओर मुड़कर गांधीनगर स्कूल लेते हुए मुरली यादव के मकान तक वहा से पूरब की ओर चलते हुए बायं हाथ के मकानो को लेते हुए महादेव मंदिर के सामने ठाकुरदास अध्यापक के वहा चत्तर सिंह सोनी के मकान तक शांता बैन लकारे के मकान तक फिर वहां से पश्चिम की ओर मूडकर बायं हाथ के मकानो को लेते हुए कपुर चंद सांडिया भवन तक वहां से उत्तर की ओर मूडकर बायं हाथ के मकानो को लेते हुए नंदु सिधीं वादवानी के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर मूडकर बायं हाथ के मकानो को लेते हुए चौधरामाता जी मंदिर के पीछे तक वहां से दक्षिण की ओर मूडकर बायं हाथ के मकानो को लेते हुए राम सिंह भैरुसिंह

	के मकान तक वहा से पश्चिम की ओर मूडकर नवीन लालचंद बैरवा के मकान तक।
27	अरविन्द मोदी की किराण दुकान से दक्षिण की ओर चलकर दायं हाथ के मकानो को लेते हुए पूर्व पार्श्वद जितेन्द्र परिहार के मकान को लेते हुए जस्सु भाई के मकान तक वहां से रोड क्रॉस कर दायं हाथ के मकानो को लेते हुए गांधीनगर बडी स्कूल के मैन गेट तक वहां से पश्चिम की ओर मूडकर दायं हाथ के मकानो को लेते हुए डीजल रोड क्रॉस कर रेल्वे लाईन तक वहां से उत्तर की ओर मूडकर दांय हाथ के मकानो को लेते हुए रेल्वे लाईन के सहारे सहारे दांय हाथ के मकानों व पावर हाउस, आशुपाल और नादीर के मकान के सामने रेल्वे लाईन तक वहां से पूरब की ओर दांय हाथ में नादीर के मकान को लेते हुए मोहन मोरवाल के मकान से दांय हाथ के मकान को लेते हुए अरविन्द मोदी की किराणा दुकान तक।
28	गांधीनगर रोड पर हनुमान मंदिर चैराहे पर स्थित रामचंद्र रेन्दामल के किराणा की दुकान से दक्षिण की ओर चलकर बायं हाथ के मकान/दुकानों को लेते हुए नवीन प्रेमचंद बैरवा के मकान तक वहां से पूरब की ओर मुडकर बायं हाथ के मकानों को लेते हुए रामसिंह भैरवसिंह के मकान तक वहां से उत्तर की ओर मुडकर बायें हाथ के मकानों को लेते हुए कन्हैयालाल जी सेवानिवृत लेखाकार के मकान के पीछे से होते हुए बायं हाथ के मकानों को लेते हुए चौधरा माता मंदिर के पीछे से होते हुए गांधीनगर मैन रोड तक। वहां से रोड क्रॉस कर पूरब की ओर मुडकर बायं हाथ के मकानों को लेते हुए दीपाराम देवाजी भील के मकान तक। वहां से उत्तर की ओर चलकर बायं हाथ के मकानों को लेते हुए मुफतराज बक्शी के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर चलकर बायें हाथ के मकानों को लेते हुए महेन्द्र कुमार हंसराज परिहार के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर मुडकर बायं हाथ के मकान शिवजी बंजारा के मकान को लेते हुए हनुमान जी मंदिर फिर रोड क्रॉस कर रामचंद्र रेन्दामल की दुकान तक।
29	रीको वुडलैण्ड के सामने गांधीनगर रोड पर श्रीमति खीमी बाई के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए दायें हाथ के मकानों को लेते हुए मालाराम मीणा के मकान तक वहां से रोड क्रॉस कर अंबेडकर भवन रोड पर सुरेश हलवाई के प्लाट से चलकर दायें हाथ के मकानों को लेते हुए पुर्विया जी के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर चलते हुए दायें हाथ के मकानो को लेते हुए जयप्रकाश जी के मकान तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुए दायां हाथ के मकानो को लेते हुए अर्जुन सिंह गैराज वाले प्लाट तक वहां से रोड क्रॉस कर कपूरचंद जी हंसा जी मीणा के मकान, दायें हाथ के मकान को लेते हुए रमेश कुमार मीणा के मकान तक वहां से पूर्व की ओर दायें हाथ के मकान को लेते हुए अनिल कुमार के मकान एवं दांया हाथ को लेते हुये महेन्द्रसिंह के मकान तक वहां से पूर्व की ओर मुडकर दांये हाथ के मकानो को लेते हुये उगम सिंह के मकान तक वहां से उत्तर

	<p>की ओर मुडकर दांये हाथ के मकानो को लेते सोहनलाल राव के मकान को लेते हुये भुपसिंह के मकान को छोडते हुये गणेश कोलोनी के पीछे की सडक तक वहां से पूर्व की ओर मुडकर दांये हाथ के गणेश कॉलोनी के पीछे के मकानों को लेते हुए प्रताप जी के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर मुडकर दायें हाथ के मकानो को लेते हुये, पॉवर हाउस दिवार के सहारे सहारे चलते हुए देवा जी के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर मुडकर दायें हाथ के मकान को लेते हुए सुभम किराणा के सामने के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर दायें हाथ के मकानों को लेते हुए रीको वुडलैण्ड के सामने गांधीनगर रोड पर श्रीमति खीमी बाई के मकान तक ।</p>
30	<p>किशन गुर्जर के मकान से दक्षिण की ओर मुडकर बाये हाथ के मकानों को लेते हुए नारायण सोनी के प्लाट तक वहां से पूर्व की ओर मुडकर नारायण सोनी का प्लाट, बाये हाथ के मकानों को लेते हुए विशाल भाई पानी वाले के मकान तक वहां से रोड क्रोस कर जवार सिंह के मकान तक, वहां से उत्तर की ओर मुडकर बाये हाथ के मकानों को लेते हुये भुपसिंह परिहार के मकान तक वहां से उत्तर की ओर मुडकर बायें हाथ के मकानों, भिखाराम हिरागर, पदमचनद कोली, मनाराम, कस्तुरचन्द हिरागर के मकानों को लेते हुये गणेश कालोनी की दिवार के सहारे-सहारे चलते हुये बाये हाथ के मकानों को लेते हुये जीवनराम माली के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर मुडकर बाये हाथ के मकानों को लेते हुए हीरा कोली के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर मुडकर बायं हाथ के मकानों को लेते हुए ईश्वर माईक वाले के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर चलकर बायं हाथ के मकानों को लेते हुए किशन गुर्जर के मकान तक।</p>
31	<p>पोस्ट ऑफिस रोड पर हनुमानजी मंदिर के कोने से पूर्व की ओर चलकर नाले के सहारे-सहारे दायें हाथ के केबिनो /दुकानों को लेते हुए, दायें हाथ के मकानों को लेते हुये गणेश कालोनी रोड पर चलते हुए हीरा कोली के मकान के सामने नाले पर स्थित पुलिया तक वहां से रोड क्रोस कर दक्षिण की ओर मुडकर दायें हाथ पर स्थित मोहनसिंह किराणा वाले का मकान को लेते हुए, अमृत पेंटर, उपाराम कोली के मकान को लेते हुये खेतलाजी मंदिर तक वहां से पश्चिम की ओर मुडकर दायें हाथ के गुरुद्वारा, रहीमबक्श (पुर्व पार्शद) के मकान को लेते हुये श्रीनाथ नमकीन वाले के मकान तक वहां से रोड क्रोस कर दक्षिण की ओर मुडकर भटनागर के मकान को लेते हुए वहां से दुसरी गली में मुडकर वहां से पश्चिम की ओर मुडकर दांये हाथ के मकान भैरव सिंह गुर्जर, अब्दुल करीम मास्टर के मकानों को लेते हुए महेश जांगिड के मकान को लेते हुए, सतीष गुप्ता के मकान तक रोड क्रोस कर सतीष गुप्ता के मकान के सामने पश्चिम दिशा की ओर मुडकर दांये हाथ के रेल्वे भूमि एवं मकानों को लेते हुए रेल्वे लाईन के नीचे गंदे नाले तक वहां से पूर्व की ओर मुडकर पोस्ट ऑफिस रोड हनुमानजी मंदिर तक</p>

32	<p>महावीर टॉकीज रोड पर न्यू अग्रवाल कॉलोनी के कोने से पूर्व की ओर बिजासनी रोड पर चलते हुए बायें हाथ के मकान, न्यू अम्बिका कॉलोनी के सामने स्थित ईसाई कब्रिस्तान के कोने तक वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर बायें हाथ से स्थित ईसाई कब्रिस्तान को लेते हुए नाले तक वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर नाले के सहारे-सहारे चलते हुए कमरूदीन के खेत तक वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर खेत की सीमा के सहारे सहारे बायें हाथ के खेत को लेते हुए जीएसएस की सीमा तक वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर जीएसएस की सीमा के सहारे-सहारे चलते हुए बायें हाथ जीएसएस कॉलोनी को लेते हुए गणेश कॉलोनी रोड तक वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर बायं हाथ मकानों को लेते हुए प्रेमनगर कॉलोनी में (दुसरी गली) मकान तक वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर बायं हाथ के मकानों को लेते हुए प्रेम नगर रोड पर मकानों को लेते हुए वहां से पूर्व की ओर मुड़कर बायं हाथ के मकानों को लेते हुए आंगनवाडी केन्द्र को लेते हुए हाइवे पर जीएसएस आरआरवीपीएनएल तक वहां से उत्तर की ओर मुड़कर बायें हाथ के जीएसएस ऑफिस को लेते हुए महावीर टॉकीज रोड तक वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर हाइवे क्रॉस कर चांदमारी मस्जिद कॉलोनी, चांदमारी मस्जिद भूमि को लेते हुए नगरपालिका सीमा तक वहां से उत्तर की ओर मुड़कर बायें हाथ के मकानों को लेते हुए वार्ड नं .37 की सीमा तक वहां से उत्तर की ओर मुड़कर हाइवे रोड तक वहां से रोड क्रॉस कर बायें हाथ के अंबिका कॉलोनी के कोने तक वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर न्यू अंबिका कॉलोनी के सहारे-सहारे बायें हाथ के मकानों को लेते हुए महावीर टॉकीज को लेते हुए महावीर टॉकीज रोड तक।</p>
33	<p>महावीर टॉकीज रोड पर संतोषी माता मंदिर को लेते हुए अंबेडकर कॉलोनी का बाउण्ड्री के सहारे-सहारे चलते हुए बायें हाथ की अंबेडकर कॉलोनी को लेते हुए गांधीनगर नाले तक वहां से नाला क्रॉस कर पश्चिम की ओर मुड़कर गणेश कॉलोनी रास्ते को लेते हुए बायें हाथ के मकानों को लेते हुए भैराराम कोली के मकान तक वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर बायं हाथ के मकान अशोक शर्मा टी. के. चटर्जी के मकानों को लेते हुए भरत पंडित के मकान तक वहां से पूर्व की ओर मुड़कर बायें हाथ के मकानों को लेते हुए बालाजी धाम भवन से चलते हुए सुगम मोरवाल के मकान को लेते हुए पावर हाउस के उत्तरी कोने से उत्तर की ओर चलकर गणेश कॉलोनी के बायं हाथ के मकानों को लेते हुए शास्त्री के मकान तक वहां से पूरब और मूड़कर मकानों को लेते हुए कमरूदीन के खेत की सीमा तक वहां से उत्तर की ओर मूड़कर बायं हाथ के मकानों को लेते हुए यूजीनकार (ईसाई) के मकान को लेते हुए गांधीनगर नाले तक वहां से पूरब की ओर मूड़कर नाले के सहारे सहारे चलते हुए बायं हाथ की कॉलोनी को लेते हुए ईसाईओ के कब्रिस्तान तक वहां से उत्तर की ओर मूड़कर बायं हाथ के मकानों को लेते हुए बिजासनी रोड पर के .जी .एन . भवन तक वहां से पश्चिम की ओर मूड़कर शर्मा के मकान कुआं को लेते हुए बायं हाथ</p>

	<p>की कॉलोनी को लेते हुए ओमप्रकाश गोयल के मकान के सामने स्थित दुकान (शुभम जनरल स्टोर) तक वहां से रोड क्रॉस कर उत्तर की और मूडकर न्यू अग्रवाल कॉलोनी में स्थित ओमप्रकाश गोयल के मकान के पीछे होते हुए बायं हाथ के मकानों को लेते हुए न्यू अग्रवाल कॉलोनी के अंतिम मकान की सीमा तक वहां से न्यू अग्रवाल कॉलोनी की सीमा, अग्रवाल कॉलोनी की सीमा के सहारे सहारे धोबी घाट कॉलोनी तक वहां से उत्तर की और मूडकर धोबी घाट के बायं हाथ के मकानों को लेते हुए धोबी घाट स्कूल रोड तक वहां से पश्चिम की और मूडकर बायं हाथ के मकानों को लेते हुए रेल्वे सीमा तक यहां से दक्षिण की और मूडकर रेल्वे सीमा के सहारे सहारे धोबी घाट रामलीला मैदान को लेते हुए रेल्वे सीमा के सहारे सहारे बायं हाथ पर अग्रवाल कॉलोनी को लेते हुए संतोषी माता मंदिर तक।</p>
34	<p>महावीर टाकिज पर रेल्वे सीमा के कॉर्नर पर स्थित संतोषी माता मंदिर से उत्तर की चल कर रेल्वे सीमा के सहारे सहारे अग्रवाल कालोनी को छोड़ते हुए बायं हाथ के रेल्वे आवास को लेते हुए धोबीघाट स्थित रामलीला मैदान रेल्वे तक डबल स्टोरी वहां से पश्चिम की और मूडकर बायं हाथ के रेल्वे आवास/फ्लेट को लेते हुए चर्च को लेते हुए रेलवे ग्राउण्ड रोड के कोने तक वहां से पश्चिम की और मूडकर बायं हाथ पर स्थित रेल्वे स्पोर्ट्स ग्राउण्ड को लेते हुए महावीर टाकिज रोड पर रेल्वे ग्राउण्ड के पश्चिमी कोने तक वहां से रोड क्रॉस कर पश्चिम की और मूडकर बायं हाथ के रेलवे हास्पिटल के रोड पर स्थित रेलवे बंगला तक वहां से दक्षिण की और मूडकर रेलवे आवासों को लेते हुए गांधीनगर के नाले तक वहां से नाला क्रॉस कर पूरब की और मूडकर बायं हाथ की नगरपालिका दुकानों/केबिनो को लेते हुए नाले के सहारे सहारे गणेश कालोनी रोड पर बायं हाथ के रेलवे आवासों को लेते हुए गणेश कालोनी रोड पर अंबेडकर कालोनी के पश्चिमी सीमा तक वहां से उत्तर की और मूडकर रेलवे आवासों को लेते हुए रेलवे सीमा के सहारे सहारे महावीर टाकिज रोड स्थित संतोषी माता मंदिर तक।</p>
35	<p>पराग पटेल के खेत को लेते हुए पश्चिम की और मुडकर पराग पटेल के मकान तक वहां से दक्षिण की और मुडकर बायें धोबी घाट में विरेन्द्र मिश्रा का मकान लेते हुए रामलीला मैदान तक वहां से पूरब की और चलते हुए बायं हाथ के मकानों को लेते हुए धोबी घाट स्कूल के पीछे स्थित खेत के कोने तक वहां से दक्षिण की और खेत के सहारे सहारे मकानों, खेत और भूमि को लेते हुए न्यू अग्रवाल कॉलोनी से महावीर टाकिज रोड पर मकानों को लेते हुए ओमप्रकाश गोयल का मकान के वहां से पश्चिम की और मूडकर बायं हाथ के न्यू अग्रवाल कॉलोनी के मकानों को लेते हुए महावीर टाकिज के पश्चिम बाउण्टी वाल तक वहां से उत्तर की और मूडकर बायं हाथ के खेत व मकानों को लेते हुए न्यू अग्रवाल कॉलोनी को छोड़ते हुए चांदमारी रोड तक वहां से उत्तर की और चल कर</p>

	बायं हाथ के मकानों को लेते हुए राजरानी अगरबत्ती वाले के मकान तक वहां से रोड क्रॉस कर पूरब की ओर चल कर चंद्रविहार कॉलोनी के रोड के बायं हाथ के मकानों को लेते हुए नाले तक वहां से पश्चिम की ओर नाले के सहारे सहारे बायं हाथ के मकानों व श्रीजी रेजिडेंसी कॉलोनी के पीछे होते हुए पराग पटेल के खेत तक।
36	पराग पटेल के खेत के पीछे नाले के सहारे-सहारे उत्तर की ओर चलते हुए हनुमान मंदिर तक वहां से बायें हाथ के डूबनगर के मकान को लेते हुए छोटे पुल रेल्वे लाईन तक, वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर रेल्वे लाईन के सहारे सहारे चलते हुए बायं हाथ के रेल्वे क्वार्टर /कार्यालयों को लेते हुए डीजल शेड छात्रावास लेते हुए रेल्वे इंस्टिट्यूट के सामने रेल्वे लाईन तक वहां से पूर्व की ओर मुड़कर रेल्वे इंस्टिट्यूट को छोड़ते हुए बायें हाथ के रेल्वे के क्वार्टरों को लेते हुए रेल्वे सुरक्षा बल केन्द्र के सामने के मकान के कोने तक वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर बायें हाथ के रेल्वे के मकानों क्वार्टरों को लेते हुए महावीर टॉकीज रोड तक, वहां से पूर्व की ओर मुड़कर बायें हाथ के रेल्वे के क्वार्टरों/फ्लेट को लेते हुए रेल्वे ग्राउण्ड के महावीर टॉकीज रोड पर पश्चिमी कोने तक वहां से उत्तर की ओर मुड़कर बायें हाथ के मकानों को लेते हुए रेल्वे आवासों को लेते हुए धोबीघाट रोड तक वहां से रोड क्रॉस कर पूर्व की ओर मुड़कर बायें हाथ बंगले को लेते हुए रेल्वे ग्राउण्ड के पास के रेल्वे फ्लेट्स तक वहां से उत्तर की ओर मुड़कर बायें हाथ के रेल्वे आवासों को लेते हुए धोबीघाट रोड तक वहां से पूर्व की ओर रोड क्रॉस कर बायें हाथ के रेल्वे मकानों को लेते हुए रेल्वे बाउन्डी के सहारे सहारे बायें हाथ के रेल्वे आवासों को लेते हुए श्री जी कॉलोनी के सामने रेल्वे बाउन्डी के कोने तक बंगला नं. (335) वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर रेलवे सीमा के सहारे सहारे पराग पटेल के मकान तक छोड़ते हुए बाएं ओर के रेल्वे आवासों को लेते हुए पराग पटेल के खेत के पीछे तक।
37	रैगर मोहल्ले कोलीवास रोड पर अब्दुल सलीम अब्दुल गनी के मकान से उत्तर की ओर नाले की तरफ चलकर बायें हाथ के मकान/नगरपालिका शौचालयों को लेते हुए नाले तक वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर नाले के सहारे-सहारे बायें हाथ पर मुन्नालाल बोड़ताराम के मकान आर.सी .परमार आदि के बायें हाथ के मकानों आदि को लेते हुए लक्ष्मी रघुनाथ के मकान को लेते हुए निम्बेश्वर महादेव लेते हुए सुरज ताराजी रैगर के मकान तक वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर नाले के सहारे-सहारे रेल्वे लाईन क्रॉस कर लुनियापुरा छोटे पुल तक वहां से दक्षिण की ओर चलकर नगरपालिका की दुकानों तक वहां से पूर्व से अण्डरपास होते हुए नाले के सहारे-सहारे चलते हुए बना डूबनगरी रोड के बायें हाथ के मकानों को लेते हुए हनुमान मंदिर तक, वहां से दक्षिण की ओर लुनियापुरा नाले के सहारे-सहारे बायें हाथ के मकानों, खेतों को लेते हुए पराग पटेल के पीछे से दक्षिण ओर नाले के सहारे-सहारे चन्द्रविहार कालोनी तक वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर

	बायं हाथ के मकानों को लेते हुए चांदमारी रोड तक वहां से उत्तर की ओर मुड़कर मुड़कर बायं हाथ के मकानों साईं बाबा स्कूल तक हाईवे रोड क्रॉस कर सरगडा वास के मकानों को लेते हुए नगरपालिका सीमा के सहारे-सहारे पूर्व की ओर चलते हुए क्रॉस कर खसरा 353, से 338 तक लेते हुए खसरा नं .80 तक वहां से पूर्व और मुड़कर नाले से राम नारायण के खेत को लेते हुए जैसाराम के खेत को छोड़ते हुए अब्दुल सलीम के मकान तक।
38	छोटे पुल नाले से पूर्व की ओर चलकर बायें हाथ पर भोई मौहल्ले को लेते हुए छगन भारती के मकान को लेते हुए रेगर मौहल्ले की पुलिया तक, पुलिया क्रॉस कर आगे नाले पर जैसाजी/मानाजी के मकान को लेते हुए कोली मोहल्ले आदि को लेते हुए भाया रेगर के खेत के सहारे सहारे चलते हुए बायें हाथ पर रेबारियों के मकान को लेते हुए हाईवे रोड तक, फिर हाईवे रोड क्रॉस कर बायें हाथ के रेबारियों के व अन्य मकानों को लेते हुए नगरपालिका सीमा तक, वहां से उत्तर की ओर मुड़कर बायें हाथ के मकानों को लेते हुए पीपली माता मंदिर तक, वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर बायें हाथ के मकानों को लेते हुए हाईवे रोड तक, वहां से हाईवे रोड क्रॉस कर लुनियापुरा की ओर आने वाले हनुमान टेकरी रोड पर चलते हुए बायें हाथ के मकानों को लेते हुए आगे रपट तक, रपट क्रॉस कर बायें हाथ के मकानों को लेते हुए, बाबूलाल सेनी के मकानों को लेते हुए भेरा सांगला जी हलवाई के मकान को लेते हुए छोटे पुल तक।
39	छोटे पुल से पूर्व की ओर चलकर बायें हाथ पर कब्रिस्तान को लेते हुए लुनियापुरा स्कूल के कोने तक वहां से रोड क्रॉस कर बायें हाथ पर मोती लाल बालाजी की दुकान को लेते हुए मस्जिद को लेते हुए रपट के पास लीलारामजी के मकान तक वहां से रपट क्रॉस कर हनुमान (हनुमान टेकरी) वाले रोड पर चलते हुए बायें हाथ के मकानों को लेते हुए, दशा माता के मंदिर को लेते हुए हाईवे रोड तक, वहां से उत्तर की ओर मुड़कर बायें हाथ के मकानों को लेते हुए मदन लाल गुप्ता की दुकान को लेते हुए दुकान के कोने तक वहां से उत्तर की ओर चलते हुए नगर पालिका की सीमा खसरा नं .369 के कोने तक वहां से पश्चिम की ओर 368, 326, 321, सदा जी अमरा जी भील के खेत को लेते हुए खसरा नं .261 से 203 तक वहां से खसरा नं .146, 147, 148, 152 को लेते हुए वार्ड नं .30 की सीमा के सहारे-सहारे शंकर लाल के मकान तक वहां से उत्तर की ओर चलकर गुरुकृपा कॉलोनी के सामने की सड़क पर चलते हुए रेशिया मीणा के मकान को लेते हुए रेल्वे लाइन तक, रेल्वे लाइन के सहारे-सहारे बायें हाथ के मकानों को लेते हुए लुनियापुरा छोटे पुल तक।
40	रजवाडा पुल से साईं दर्शन कॉलोनी से माउण्ट रोड पर पूर्व की ओर चलकर बायें हाथ की साईं कॉलोनी को लेते हुए थान सिंह की होटल तक वहां से तरतौली रोड क्रॉस कर दक्षिण

<p>की और मुडकर बाये हाथ पर ऋषिकेश खेत लेते हुए आई .डी .बी .आई बैंक मुलजी होटल यस बैंक चौधरी कॉलोनी बी.एस. स्कूल को लेते हुए माउण्ट रोड पर सैनी कम्युनिकेशन को लेते हुए रेल्वे के बंगलो (बायें हाथ के) रेल्वे कार्टर को लेते हुए लुनियापुरा पुल तक वहां से पूर्व की और फिर उत्तर चलकर रेल्वे लाइन के सहारे-सहारे रेल्वे के डबल स्टोरेज मकानों के सामने से लाइन क्रॉस कर गुरूकृपा कॉलोनी के बायें हाथ के मकानों को लेते हुए नरसिंह राणा के मकान तक वहां से पूर्व की और चलकर वार्ड नं .39 की सीमा के सहारे-सहारे बायें हाथों के मकानों को लेते हुए पश्चिम की और चलकर खसरा नं .151,155, व 153 को लेते हुए रेल्वे लाइन तक वहां से उत्तर की और चलकर रेल्वे लाइन के सहारे-सहारे बायें हाथ के मकानों को लेते हुए तेज सिंह देवडा व बायें हाथ के मकानों को लेते हुए आरासुरी कॉलोनी में मिठालाल नाई के मकान तक वहां से तरतौली रोड क्रॉस कर पश्चिम दिशा की और चलते हुए नदी किनारे तक वहां से दक्षिण की और चलते हुए बायें हाथ के मकानों को लेते हुए रजवाडा पुल तक।</p>
--

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, आबूरोड़

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।